

निजी पूंजीगत व्यय 7.7 लाख करोड़ पर

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने निवेश वृद्धि को दो मजबूती
सीआईआई ने ईधन शुल्क कटौती वापस लेने की मांग उठाई

नयी दिल्ली, 10 मई भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने रविवार को बताया कि भारत का निजी पूंजीगत व्यय सितंबर 2024 के 4.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2025 में 67 प्रतिशत बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो देश के निवेश चक्र में व्यापक और मजबूत पुनरुद्धार का अब तक का सबसे निर्णायक संकेत है।
सीआईआई ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान और उसके बाद के लिए उद्योग जगत



के लिए पांच-सूत्रीय कार्ययोजना भी प्रस्तुत की है, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में मार्च में की गई कटौती को चरणबद्ध तरीके से वापस लेना भी शामिल है। इसके अलावा, उसने उद्योग द्वारा स्वैच्छिक ऊर्जा संरक्षण

संधि, एमएसएमई भुगतान को 45-दिन की गारंटी, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के साथ गहरे आयात प्रतिस्थापन, तथा निजी पूंजीगत व्यय को अग्रिम रूप से बढ़ाने के साथ स्वैच्छिक मूल्य संयम और इंटरशिप में वृद्धि करने की सलाह दी है।

उद्योग संगठन ने करीब 1,200 कंपनियों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर बताया कि निजी क्षेत्र का निवेश - जिसे शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियों और निर्माणधीन पूंजीगत कार्यों में वार्षिक परिवर्तन के रूप में मापा गया - सितंबर 2025 में बढ़कर 7.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले के 4.6 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र ने अग्रणी भूमिका निभाई और कुल निजी पूंजीगत व्यय का लगभग आधा, यानी 3.8 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया। इसमें धातु, ऑटोमोबाइल और रसायन क्षेत्र सबसे आगे रहे।

देशभर में लागू हुए नए लेबर कोड

नयी दिल्ली, 10 मई. भारत में नए लेबर कोड्स अब पूरी तरह से लागू हो गए हैं, जिससे काम से जुड़े नियम अब कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए सरल और स्पष्ट हो गए हैं। पहले देश में 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, जो जटिल और पालन में मुश्किल थे। इन नए चार कानूनों के लागू होने से वे सभी पुराने कानून समाप्त हो गए हैं। अब मजदूरों और नियोक्ताओं को नियम समझने और लागू करने में आसानी होगी। नई व्यवस्था के तहत, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, जिससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा। महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 हफ्ते की मातृत्व छुट्टी मिलेगी और आवश्यकता पड़ने पर घर से काम करने की सुविधा भी मिलेगी।

एफपीआई की बिकवाली जारी

मई के पहले सप्ताह में पूंजी बाजार से निकाले 9,772 करोड़ रुपये

मुंबई, 10 मई विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने मई के पहले कारोबारी सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 9,772 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है।

इससे पहले अप्रैल और मार्च में भी एफपीआई शुद्ध रूप से बिकवाल रहे थे, यानी उन्होंने जितना निवेश किया था उससे अधिक पैसे निकाले थे।

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने मई में अबतक इक्विटी में 14,231 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है। हाइब्रिड उपकरणों में भी उनका निवेश ऋणात्मक रहा है जबकि डेट और म्यूचुअल फंड में उन्होंने पैसा लगाया है। इस महीने डेट में एफपीआई



यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। इस साल मार्च में उन्होंने 1,26,991 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिकवाली की थी। अप्रैल में भी उन्होंने 70,786 करोड़ रुपये निकाले थे। इस साल अब तक एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार से शुद्ध रूप से 1,98,773 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं।

का शुद्ध निवेश 4,384 करोड़ रुपये बढ़ा है। म्यूचुअल फंड में उन्होंने 187.72 करोड़ रुपये का निवेश किया। हाइब्रिड उपकरणों से उन्होंने 112.28 करोड़ रुपये निकाले।

महंगाई के आंकड़ों से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई, 10 मई. धरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में महंगाई के आंकड़े निवेशकों की धारणा को दिशा देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में यदि कोई विशेष प्रगति होती है तो उसका असर सीधे तौर पर बाजार पर पड़ेगा।

इसके अलावा, अगले सप्ताह खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े भी जारी होने हैं। इनका असर भी बाजार पर दिखेगा। पिछले सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 414.69 अंक (0.54 प्रतिशत) की साप्ताहिक तेजी के साथ 77,328.19 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक में सोमवार और बुधवार को तेजी रही जबकि अन्य तीन दिन गिरावट के रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50

सूचकांक भी 178.60 अंक (यानी 0.74 प्रतिशत) की साप्ताहिक तेजी के साथ 24,176.15 अंक पर पहुंच गया। मझौली और छोटी कंपनियों के लिए यह सप्ताह अच्छी लिवाली वाला रहा। सप्ताह के दौरान निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 4.42 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 4.05 प्रतिशत उछल गया।

आलोच्य सप्ताह में सेंसेक्स की 30 से 20 कंपनियों के शेयर हरे निशान में रहे, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 7.51 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी रही। एशियन पेंट्स का शेयर 6.37 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स का 6.35, इंडिगो का 5.27, बजाज फिनसर्व का 3.97, इटएल का 3.87, अल्ट्राटेक सीमेंट का 3.15 और मारुति सुजुकी का 3.10 प्रतिशत बढ़ा।

चावल में साप्ताहिक नरमी गेहूं, चीनी महंगी

नयी दिल्ली, 10 मई. घरेलू थोक जिस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव टूट गये। वहीं, गेहूं और चीनी में तेजी का रुख रहा जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया। सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 76 रुपये घटकर सप्ताहांत पर 3,761 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी। गेहूं तीन रुपये महंगा हुआ और 2,785 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया। आटे का भाव भी 17 रुपये बढ़कर 3,290 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान तुअर दाल की औसत कीमत 53 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गयी। मूंग दाल में 26 रुपये और चना दाल में 18 रुपये की साप्ताहिक गिरावट रही। वहीं, उड़द दाल तीन रुपये और मसूर दाल दो रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई।

रिजर्व बैंक अधिकारियों ने नीति विरोध जताया

भारतीय रिजर्व बैंक के करीब 8,000 अधिकारियों ने नई प्रमोशन नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया

मुंबई, 10 मई. भारतीय रिजर्व बैंक के करीब 8,000 अधिकारियों ने नई प्रमोशन नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अधिकारियों का आरोप है कि समयबद्ध प्रमोशन प्रणाली को खत्म कर नई नीति में पदोन्नति को केवल रिक्तियों की उपलब्धता से जोड़ दिया गया है, जिससे खासकर युवा अधिकारियों का करियर प्रभावित हो रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि इससे उनके मनोबल पर बुरा असर पड़े है और एक कर्मियों को लंबे समय तक एक ही पद पर काम करना पड़ रहा है। 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन' ने



इस मामले में गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में अधिकारियों ने बताया कि मैनेजमेंट ने उनकी आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखे बिना

क्षेत्रीय कार्यालयों और मुंबई मुख्यालय में अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन ने इस मामले में मैनेजमेंट से आग्रह किया है कि वे कर्मचारियों की चिंता को समझें और करियर ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध प्रमोशन प्रणाली को फिर से लागू करने पर विचार करें। यदि नई नीति को जल्द संशोधित नहीं किया गया, तो बैंक की कार्यक्षमता और कर्मचारी संतुष्टि दोनों पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि केवल पद रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर प्रमोशन व्यवस्था युवा अधिकारियों को हतोत्साहित कर रही है और भविष्य में प्रतिभाशाली कर्मियों के बैंक में बने रहने की संभावना को भी प्रभावित कर सकती है।

तेल संकट से बढ़ेगी भारत की महंगाई

कच्चा तेल 96 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान

नयी दिल्ली, 10 मई. पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। एशियाई विकास बैंक ने आशंका जताई है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं, जिससे भारत में महंगाई और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ेंगे।



इसके 80 डॉलर प्रति बैरल पर आने का अनुमान है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस से पूरा करता है। ऐसे में तेल कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन,

सोना और चांदी के दामों में हल्की गिरावट

नई दिल्ली, 10 मई. भारत में आज सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुद्ध सोने की कीमत में लगभग 419 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है और प्योर गोल्ड का भाव 167,623 पर आ गया है। 24 कैरेट सोना 166,952, 22 कैरेट 153,807 और 18 कैरेट सोना 125,843 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत में भी नरमी देखी गई। आज 1 किलो चांदी रु. 97,872 पर रही, जो कल की तुलना में रु. 245 सस्ती हुई है।

गलत आईटीआर फॉर्म पर आ सकता है नोटिस

नई दिल्ली, 10 मई. इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने का समय शुरू हो गया है। इस दौरान सबसे जरूरी काम सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना है। अगर टैक्सपेयर्स गलत फॉर्म भर देते हैं तो उनका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या फिर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इससे हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार सही फॉर्म चुनकर ही रिटर्न भरना चाहिए। नौकरी करने वाले लोगों,

प्रोफेशनल और प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म तय किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और वह नौकरी करता है तो उसे आईटीआर-1 (सहज) भरना होता है। इसमें वेतन, दो घर से होने वाली आय और बैंक ब्याज से होने वाली आय शामिल की जा सकती है।



श्रीमती सीतारमण ने जन्ता के बीच इन योजनाओं की बढ़ती लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत क्रमशः 27 करोड़, 58 करोड़ और 9 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं। उन्होंने कहा 'जन सुरक्षा योजनाओं की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, बैंकों और बीमा कंपनियों के जमीनी स्तर के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के प्रति हादिक आभार, जिनके सम्पत्ति प्रयासों से ये योजनाएं इतनी सफल हुईं.'

समाचार विशेष

प्रथम पेज का शेष

राहुल-विजय की जोड़ी का ऐतिहासिक युगांतर का आगाज

इसलिए जब भी राहुल गांधी ऐसे दलों के नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी को बड़े भाई के रूप में स्वीकार करने में असहजता होती रही है। लेकिन टीवीके व विजय ने अपने आरंभिक दिन में ही सत्ता के घमंड में मगूर हुए बगैर न सिर्फ राहुल गांधी को शपथग्रहण समारोह में विशेष तर्जोह दी बल्कि अपने पहले संबोधन में ही राहुल गांधी के महत्व को तमिलनाडु के जनता के सामने रख दिया। हालांकि राहुल गांधी ने भी नए गठजोड़ के निर्माण में पदों के पीछे रहकर विजय को बहुमत के जादूई आंकड़े तक पहुंचाने में मदद की और जब समय आया तो सार्वजनिक मंच से अपने नए दोस्त को भाई के रूप में स्वीकृति दी।

कांग्रेस अकेले भी मोर्चाबंदी की तैयारी में : जहां तक राष्ट्रीय राजनीति में बनने वाले नए समीकरण का सवाल है तो इस विषय पर राजनीतिक जानकारों की राय बंटी हुई है। जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि नए गठबंधन का राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा और दूरगामी असर पड़ने जा रहा है। इस एक फैसले ने विपक्षी एकजुटता के पूरे गणित को बदल दिया है। क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसपर धोखा देने का आरोप लगाया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हो चुका है इसलिए वे अब नए सिरे से क्षेत्रीय ताकतों को जोड़ेंगे। जबकि पंजाब व दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े क्षेत्रीय दल इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में भाजपा विरोधी दलों के बीच ही क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय की जंग आरंभ होगी और एकबार फिर तीसरे विकल्प के रूप में नया प्रयोग होगा। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक समीक्षक यह मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने दूरगामी रणनीतिक, राजनीतिक व जमीनी हकीकत को समझकर बड़ा फैसला लिया है। वैसे भी इंडिया गठबंधन दल इस समय अपने भविष्य के लिए संघर्षरत हैं उनमें से किसी के पास अकेले सत्ताधारी ताकत से लड़ने की क्षमता नहीं है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व को यह समझ है कि सत्ता विरोधी बोटों के बिखराव से कांग्रेस के साथ-साथ उन्हें भी नुकसान होगा। ऐसे में डीएमके के अभियान को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा में राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा को कांग्रेस ही हराएगी। यानी कांग्रेस अकेले भी मोर्चाबंदी की तैयारी में, तमिलनाडु में राहुल गांधी व विजय की दोस्ती ने जहां एक तरफ परंपरागत राजनीति से अलग नई राजनीति को जन्म दिया है वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच बहुस्तरीय संदेश स्थापित करते हुए तमिलनाडु में केन्द्र के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर पूर्ण विराम लगा दिया है।

भाजपा ने कांग्रेस नेता की पत्नी को टिकट देकर चौंकाया

जोगिंद्र नगर में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, क्या जीत पाएंगी बिंदु बाला ?

मंडी. हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच मंडी जिले के जोगेंद्रनगर में राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा ने जिला परिषद के नेर घरबासड़ा वार्ड से कांग्रेस नेता की पत्नी को टिकट देकर सभी को चौंका दिया।



जानकारी के अनुसार, नेर घरबासड़ा वार्ड से बिंदु बाला को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और वह अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी की पत्नी हैं। अनिल चौधरी सुक्यू सरकार में सीनियर स्टैंडिंग कार्डिनल के पद कार्यरत हैं। बताया

प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर, जानकारों का मानना है कि भाजपा ने कांग्रेस में संघमारी करते हुए चुनावी समीकरणों को बदलने का दांव खेला है। हालांकि, चुनावी नतीजे भाजपा के दांव पर मुहर लगाएंगे कि यह कितना सफल रहा। उधर, जोगेंद्रनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने भाजपा प्रत्याशी के साथ तस्वीरें शेयर की और जिला परिषद के तीनों वार्डों के प्रत्याशियों को शुभकामना दी है। विधायक का दावा है कि तीनों पार्टी प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत निश्चित है। गौर रहे कि इस बार भाजपा ने पार्टी संबल पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है।

विधायक राणा ने क्या कहा ?

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जोगिंद्रनगर के नेर घरबासड़ा वार्ड से भाजपा समर्थित प्रत्याशी बिंदु बाला जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, साथ ही उनके उज्वल भविष्य की कामना करते हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा परिवार में शामिल हुए सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी राष्ट्रहित, विकास और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

बंगाल के इनाम में मंगल पांडेय को मिली विदाई

पटना. बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश कुमार को पिछली कई सरकारों में मंत्री रहे मंगल पांडेय को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली है। भाजपा कोटे से मंत्री लड़ाने में उनसे ज्यादा भूमिका सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने निभाई हो लेकिन कई सालों से पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडेय ही थे।

तभी माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली बड़ी जीत का इनाम मंगल पांडेय को भी मिलेगा। लेकिन उलट वे सरकार से बहार हो गए। वे पिछली जाति है उसे सफलतापूर्वक पूरा करते रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। हो सकता है कि चुनाव



सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और कामकाज को लेकर भी ज्यादा शिकायत नहीं थी।

विशेष बंगाल वाला फॉर्मूला कैसे मास्टरस्ट्रोक ?

5 ब्रह्मस्त्र से यूपी फिर जीतेगी बीजेपी !

लखनऊ. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपार सफलता मिलने से उत्साहित बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही रणनीति अपनाएगी जो उसने बंगाल में अपनाई थी। बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत और सक्रिय करने के बड़े इलेक्शन प्लान पर काम कर रही है।



उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी इस योजना को 1.6 लाख वृथ् स्तरीय समितियों कि जरिए अंजाम देगी। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 80,000 वृथ्थों को मैनेज करने की बेहद सटीक रणनीति अपनाई थी। उसने इस

चुनावों में बीजेपी को मिली जीत का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। बंसल उस समय पार्टी के यूपी के प्रभारी थे। अमित शाह ने उनके साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाई थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई बृथ् स्तर की कमेटीयों के सत्यापन के काम में जुटी है। इन कमेटीयों का हाल ही में संगठनात्मक फेरबदल के तहत पुनर्गठन किया गया था। यूपी बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिलने का बड़ा बृथ् स्तर की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस योजना में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों को प्रचारित

जानकारों का कहना है कि यूपी में अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद बीजेपी निश्चित होकर बैठने वाली नहीं है। वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लगातार बढ़ती आक्रामकता के बीच खुद को ज्यादा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल के लिए तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी अपनी ८३ एसज की रणनीति- व्संगठन, सरकार और संघ को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसे एक बहु स्तरीय चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक लामबंदी, शासन का नैरेटिव और वैचारिक मजबूती, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे।

बीजेपी की बहु स्तरीय चुनावी रणनीति

किया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस की कमियों को बेनकाब किया जाएगा। बीजेपी महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए विपक्ष की महिला विरोधी मंशा उजागर करेगी। यानी बड़े लोगों को बताएंगी कि विपक्ष ने कैसे महिलाओं को आश्रय देने वाले संवैधानिक विधेयक को रोकने की कोशिश की थी।

इसके अलावा पार्टी विपक्ष के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाले नैरेटिव का मुकाबला करने पर देने की योजना बना रही है। इस नैरेटिव ने उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। ऐसा करने के लिए बीजेपी एक दोहरी रणनीति अपनाएगी, जिसमें योगी सरकार के कामकाज की तुलना अखिलेश यादव की पिछली सरकार के कामकाज से की जाएगी।